

दिनांक

क्लाइंट का नाम और पता

क्लाइंट के प्रतिनिधि का नाम और पता

जवाब: उन्नीस (19) वर्ष की आयु की पात्रता समीक्षा के लिए अधिसूचना

आप अभी DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) के लिए पात्र हैं। DDA के साथ आपकी पात्रता की समीक्षा आपके बीसवें (20th) जन्मदिन से पहले की जाएगी। निम्नलिखित स्थितियों में से एक में DDA के लिए आपकी योग्यता को जारी रखने के लिए, हमें आपसे प्राप्त जानकारी पर्याप्त हो सकती है: बौद्धिक दिव्यांगता, मस्तिष्क पक्षाघात, मिर्गी, आत्मकेंद्रित, अन्य न्यूरोलॉजिकल या अन्य स्थिति जो बौद्धिक दिव्यांगता के समान हो। हमने आवश्यक दस्तावेजीकरण तालिका संलग्न की है, ताकि आपको बता सके कि कौन-सी जानकारी आवश्यक है।

आपको क्या करने की आवश्यकता है?

DDA को इस पुनर्निर्धारण के लिए आवश्यक जानकारी भेजने में खुशी होगी। यदि आप DDA से जानकारी पाना चाहते हैं, तो कृपया निम्नलिखित संलग्न सहमति फॉर्म को भरें:

1. स्थानों, प्रदाताओं, और उन सुविधाओं के बारे में लिखें जिनका अनुरोध हम सहमति फॉर्म पर जानकारी देने के लिए कर सकते हैं। सहमति फॉर्म में सूचीबद्ध सभी लोगों की संपर्क जानकारी लिखें।
2. संलग्न सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करें और दिनांक लिखें, और
3. DDA को फॉर्म वापस करें।

यदि मैं इस अनुरोध का जवाब न दूँ, तो क्या होगा?

कृपया जितनी जल्दी हो सके जवाब दें, लेकिन आपके बीसवें (20th) जन्मदिन से 90 दिनों के बाद नहीं। यदि हमें आपसे जवाब नहीं मिलता है, तो हम आपके क्लाइंट फ़ाइल में हमारे पास उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके आपकी पात्रता की समीक्षा करेंगे। यदि पात्रता पर निर्णय की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है, तो आपके 20th जन्मदिन पर DDA के लिए आपकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी।

यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो संपर्क करें:

नाम

टेलीफोन नंबर

ईमेल पता

पात्रता को नियंत्रित करने वाले राज्य के नियमों (WAC 388-823) की एक प्रति अनुरोध पर या इस लिंक पर ऑनलाइन उपलब्ध है
<https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility>

संलग्न: आवश्यक दस्तावेजीकरण तालिका
सहमति फॉर्म (DSHS 14-012)

संलग्न: क्लाइंट फाइल

आवश्यक दस्तावेजीकरण तालिका

दिव्यांगता की स्थिति	निदान	निदान करनेवाला	आवश्यक दस्तावेजीकरण
बौद्धिक दिव्यांगता	बौद्धिक दिव्यांगता	नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल सायकोलोजिस्ट्स द्वारा प्रमाणित एक लाइसेंस प्राप्त मनोवैज्ञानिक, वाशिंगटन प्रमाणित स्कूल मनोवैज्ञानिक या अन्य स्कूल मनोवैज्ञानिक।	माध्य से नीचे दो मानक विचलन से अधिक पूर्ण आईक्यू स्कोर और माध्य से नीचे दो मानक विचलन से अधिक अनुकूल कौशल जांच स्कोर सहित पूर्ण मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट, और पिछले 36 महीनों के भीतर पूरी की गई रिपोर्ट।
मस्तिष्क पक्षाघात	मस्तिष्क पक्षाघात चारों अंगों का पक्षाघात आधे अंगों में पक्षाघात शरीर के दोनों किनारों पर संबंधित भागों का पक्षाघात	लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक	3 साल की उम्र से पहले और दो या दो से अधिक क्षेत्रों (शौचालय, स्नान, भोजन, ड्रेसिंग, गतिशीलता या संचार) में दैनिक प्रत्यक्ष भौतिक सहायता की आवश्यकता से जुड़ी जानकारी।
मिरगी	मिर्गी या दौरों का विकार	बोर्ड प्रमाणित न्यूरोलॉजिस्ट	चिकित्सीय इतिहास और न्यूरोलॉजिकल परीक्षण के आधार पर निदान, अनियंत्रित और लगातार दौरों की चिकित्सक या न्यूरोलॉजिस्ट से पुष्टि, और अनुकूली कौशल परीक्षण नीचे दो से अधिक मानक विचलन के अनुकूली कामकाज में पर्याप्त बाधाएं दिखा रहा है।
आत्मकेंद्रित (per DSM-IV-TR)	आत्मकेंद्रीत या स्वपरायण विकार Per 299.00 in DSM-IV-TR	आत्मकेंद्रित केंद्र, विकासत्मक केंद्र, या उत्कृष्टता केंद्र, या एक बोर्ड प्रमाणित: न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, या विकासवादी और व्यवहार बाल रोग विशेषज्ञ से जुड़ा हुआ एक लाइसेंस प्राप्त मनोवैज्ञानिक, एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक या ARNP	प्रति DSM-IV-TR पूर्ण मूल्यांकन जो सभी नैदानिक मानदंडों को पूरा करता है, 3 साल की उम्र से पहले सामाजिक, भाषिक, संचार कौशल या प्रतीकात्मक या कल्पनाशील खेल में देरी या असामान्य कामकाज का प्रमाण, और अनुकूली कौशल परीक्षण अनुकूली कामकाज में पर्याप्त सीमाएं दिखाते हुए माध्य से नीचे दो से अधिक मानक विचलन।
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर (per DSM-5)	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर प्रति DSM-5 दोनों कॉलम में गंभीरता का स्तर 2 या 3 शामिल है	आत्मकेंद्रित केंद्र, विकासत्मक केंद्र, या उत्कृष्टता केंद्र, या एक बोर्ड प्रमाणित: न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, या विकासवादी और व्यवहार बाल रोग विशेषज्ञ से जुड़ा हुआ एक लाइसेंस प्राप्त मनोवैज्ञानिक, एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक या ARNP	प्रति DSM-IV-TR पूर्ण मूल्यांकन जो सभी नैदानिक मानदंडों को पूरा करता है, तीन या 3 साल की उम्र से पहले देरी या असामान्य कामकाज के प्रमाण गंभीरता स्तर के दोनों स्तंभों में 2 या 3 की गंभीरता स्तर के साथ अनुकूली कौशल परीक्षण दो से अधिक मानक विचलन के अनुकूली कामकाज और एक के FSIQ में पर्याप्त सीमाएं दिखाते हैं। मानक विचलन या माध्य से अधिक - या - DSM-IV प्रति ऑटिस्टिक विकार 299.00 के सभी मानदंडों को पूरा करता है।

अन्य न्यूरोलॉजिकल या बौद्धिक विकलांगता के समान अन्य स्थिति	न्यूरोलॉजिकल या क्रोमोसोमल विकार बौद्धिक और अनुकूली कौशल की कमी के कारण जाना जाता है	लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक	माध्य से नीचे 1.5 मानक विचलन से अधिक पूर्ण आईक्यू स्कोर और माध्य से नीचे दो मानक विचलन से अधिक की अनुकूली कामकाज में पर्याप्त सीमाएं दिखाता हुआ अनुकूली कौशल जांच।
<p>नोट: यह फॉर्म केवल एक सामान्य गाइड है और DDA को अतिरिक्त जानकारी या आंकलन की आवश्यकता हो सकती है। यह दस्तावेज पालता निर्धारित करने का पहला कदम है। DDA पालता प्रति अध्याय 388-823 WAC द्वारा निर्धारित की जाती है।</p>			